



हमीरपुर पुलिस



दिनांक 07/06/2021

थाना जरिया

फायरिंग की घटना के 04 नामजद वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

अवगत कराना है कि दिनांक 05/06/2021 को थाना जरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इन्दरपुरा में क्रिकेट मैच खेलने के दौरान हुए विवाद में फायरिंग की घटना में 02 युवक 1) प्रवेश कुमार व 2) जितेन्द्र कुमार पुत्रगण करन सिंह घायल हुए थे, इनके पिता करन सिंह पुत्र परशुराम निवासीगण इन्दरपुरा को भी चोट आई थी, घायलो को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया जिस सम्बन्ध में थाना जरिया पर घायल प्रवेश व जितेन्द्र के चाचा राजकुमार पुत्र परशुराम निवासी इन्दरपुरा की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-108/21, धारा-147/148/149/286/307/308/323/504/506/188/269/270/291 आईपीसी, आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51/57 व धारा 03 महामारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था, अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम में आज दिनांक 07/06/2021 को उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित 04 नामजद वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा बरामद किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर थाना जरिया पर मु0अ0सं0-109/21, धारा-3/25 आयुध अधिनियम बनाम जयप्रकाश उपरोक्त तथा मु0अ0सं0-110/21, धारा-3/25 आयुध अधिनियम बनाम जितेन्द्र राजपूत उपरोक्त पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अन्य शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1) जय प्रकाश पुत्र विजय कुमार राजपूत निवासी ग्राम इन्दरपुरा थाना जरिया जनपद हमीरपुर
- 2) जितेन्द्र राजपूत पुत्र लोटन निवासी ग्राम बसरिया थाना जलालपुर हालपता ग्राम अमूंद थाना जरिया हमीरपुर
- 3) विजय कुमार पुत्र काशी प्रसाद राजपूत निवासी ग्राम इन्दरपुरा थाना जरिया जनपद हमीरपुर
- 4) प्रमोद कुमार पुत्र भानसिंह निवासी ग्राम अमूंद थाना जरिया जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण-

- 1) अभियुक्त जय प्रकाश को कब्जे से एक बन्दूक 12 बोर /दो जिंदा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर,
- 2) अभियुक्त जितेन्द्र के कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर व एक जिंदा मिस कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1)प्र0नि0 राजेश कुमार वर्मा
- 2)उ0नि0 कृष्ण मोहन पाण्डेय
- 3)उ0नि0 प्रभुराज सिंह
- 4)उ0नि0 हरिनारायन यादव
- 5)उ0नि0 प्रेम चन्द्र मौर्य
- 6)आ0 उमाशंकर शुक्ला
- 7)आ0 जितेन्द्र कुमार
- 8)आ0 वेद प्रकाश
- 9)आ0 प्रिन्स कुमार
- 10)आ0 पवन कुमार
- 11)रि0आ0 अनुज कुमार

